

PD-405
(593) M.COM (THIRD SEMESTER)
Examination Dec.-2020
Compulsory/Optional
Group-
Paper- V

Name/Title of Paper- TAX PLANNING AND MANAGEMENT
Time:- Three Hours

Maximum Marks- 080
Minimum Passing Marks-029

नोट: दोनों खण्डों से निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित हैं।
Note: Answer From Both the Section as Directed. The Figures in the right-hand margin indicate marks.

खण्ड / Section-A

1 निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

Answer the following multiple choice type questions:

1x10

- (a) भारतीय साझेदारी अधिनियम का वर्ष है- Year of Indian partnership Act is-
(i) 1930 (ii) 1931 (iii) 1933 (iv) इनमें से कोई भी नहीं None of the above
- (b) किस धारा के अंतर्गत पुनः कर निर्धारण का प्रावधान है-
Under which section there is provision of Re-assessment-
(i) 143 (ii) 144 (iii) 145 (iv) 147
- (c) उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है- Tax deduction at source is done by-
(i) भुगतानकर्ता द्वारा Person making payment (ii) सरकार द्वारा Government
(iii) आयकर विभाग द्वारा Income tax department (iv) आयकर दाता द्वारा Income tax payer
- (d) लॉटरी की जीत पर उद्गम स्थान पर कर कटौती की दर है-
Rate of tax deduction at source on Lottery winnings is-
(i) 10% (ii) 20% (iii) 30% (iv) 30.9%
- (e) अग्रिम कर भुगतान स्थगित करने पर किस धारा के अंतर्गत ब्याज लगेगा-
Under which section interest will be charged on deferment of advance tax-
(i) 234A (ii) 234B (iii) 234C (iv) 234D
- (f) अग्रिम कर की दूसरी किस्त की देय तिथि है-
Due date of second instalment of advance tax is-
(i) 15 सितम्बर 15 September (ii) 15 दिसंबर 15 December
(iii) 15 मार्च 15 March (iv) 15 जून 15 June
- (g) प्लांट, मशीनरी या उपस्कर के किराये पर उद्गम स्थान पर कर कटौती की दर है -
The rate of Tax deduction at source on rental payments of plant, machinery or equipment is -
(i) 1% (ii) 2% (iii) 5% (iv) 10%
- (h) आयकर अधिनियम, 1961 के धारा-80G के अंतर्गत छुट किससे स्वीकार्य है (किससे दिया जाता है)
Deduction v/s 80 G of Income tax Act, 1961 is allowable to -
(i) केवल कंपनी को Only company (ii) केवल साझेदारी फर्म को Only to partnership firm
(iii) उक्त दोनों को Both of above (iv) दोनों में किसी को नहीं None of both
- (i) धारा 80C की कटौती लागू होती है - Deduction under section 80 C applicable to -
(i) केवल व्यक्ति पर Only on individual (ii) फर्म पर On Firm
(iii) कंपनी पर On company
(iv) व्यक्ति एवं हिन्दु अविभाजित परिवार पर
On individual and Hindu undivided family (HUF)

(j) आयकर अधिनियम 1961 की धारा – 80GGB के अंतर्गत राजनीतिक दल या निर्वाचन ट्रस्ट को अंशदान के संबंध में छुट किसे स्वीकार्य है (किसे दिया जाता है)

Deduction v/s 80GGB for contribution to political parties or election trust under Indian Income Tax Act, 1961 is allowed to -

- (i) केवल कंपनी को Only to company (ii) केवल फर्म को Only to Firm
(iii) कंपनी एवं फर्म दोनों को To both company and firm (iv) किसी को नहीं To none

2. निम्नलिखित लघु-उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

2x5

Answer the following short-answer type questions:

- (a) स्वयं कर निर्धारण क्या है। What is self assesement.
(b) उदगम स्थान पर कर की कटौती को समझायें। Explain Tax deduction at source.
(c) आयकर विवरणी क्या है। What is Return of income.
(d) न्यूनतम वैकल्पिक कर को समझायें। Explain minimum alternative tax.
(e) फर्म की दशा में पुस्तक लाभ को समझायें। Explain book profit in case of firm.

खण्ड / Section-B

निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

12x5

Answer the following long answer type questions:

इकाई / Unit-I

3. फर्म के संगठन में परिवर्तन को समझायें।

Explain the change in the constitution of firm.

अथवा / Or

निम्नलिखित सूचनाओं से कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लि.लि. मे कर दायित्व की गणना कीजिए—
From the following information compute the tax payable by X Ltd for the assessment year 2020-21

- | | |
|--|-----------|
| 1. प्रतिभूतियों के विक्रय से व्यापारिक लाभ
Business Income from sale of securities | 8,50,000 |
| 2. अन्य व्यापारिक लाभ
Other Business Income | 10,00,000 |
| 3. दीर्घकालीन पूँजी लाभ
Long-term capital gains | 4,00,000 |
| 4. प्रतिभूति संव्यवहार कर दिया
(व्यापारिक आय में से इसकी कटौती नहीं की गई है)
Securities transaction tax paid
(Not deducted from business income) | 1,50,000 |

इकाई / Unit-II

4. कर निर्धारण की विभिन्न विधियों को संक्षेप में समझाइए।

Explain briefly the different types of assesement.

अथवा / Or

स्थायी खाता संख्या क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है।

What is permanent account number (PAN)? What is its utility.

इकाई / Unit-III

5. कर नियोजन एवं वित्तीय प्रबंध निर्णयों पर एक लेख लिखिये।

Write an essay on Tax planning and financial management decisions.

अथवा / Or

कर बचाव (Tax avoidance) एवं कर वंचना (Tax Evasion) को समझायें? दोनों में क्या अंतर है।
Explain Tax avoidance and Tax evasion. What is the difference between them?

इकाई/Unit-IV

6. तीन कंपनियों की पूँजी संरचना निम्न प्रकार है:-

Capital structure of three companies is as under:-

पूँजी का प्रकार Type of capital	ए लि. A Ltd.	बी लि. B Ltd.	सी लि. C Ltd.
समता अंश पूँजी Equily share capital	5,00,000	4,00,000	2,00,000
12% ऋण पत्र 12% Debenture	—	1,00,000	3,00,000
	5,00,000	5,00,000	5,00,000

बताइए किस कं. की पूँजी संरचना श्रेष्ठ है, यदि विनियोग पर प्रत्याय दर निम्नलिखित है:-

(a) 20% (b) 15% (c) 10%

आयकर की अनुमानित दर 26% मानते हुए अपना निष्कर्ष दीजिए।

Explain whose capital structure is best if the rate of return on investment is:-

(a) 20% (b) 15% (c) 10%

Give your conclusion assuming that rate of Income Tax is 26%

अथवा/Or

बोनस अंश क्या है? एक अंशधारी बोनस अंशों के संबंध में किस प्रकार अपना कर दायित्व कम कर सकता है।

What is a bonus share? How can a shareholder reduce his tax liability regarding bonus shares.

इकाई/Unit-V

7. उदगम स्थान पर कर की कटौती से क्या आशय है? वे भुगतान कौन से हैं जिनसे उदगम स्थान पर कर काटा जाता है।

What is meant by deduction of tax at source? What are the payments on which tax is deducted at source.

अथवा/Or

मि. जे. पी. की वित्तीय वर्ष 2020-21 की चालू आय का अनुमान निम्न प्रकार है-

Mr. J.P. estimates his current income for the financial year 2020-21 as follows-

व्यापार से कर - योग्य आय Taxable Income from business	₹ 6,84,500
पूँजी लाभ (अल्पकालीन प्रतिभुतियों से नहीं) Capital gain (short-term not from securities)	13,500
अन्य साधनों से आय Income from other sources	<u>26,000</u>
	सकल कुल आय- Gross total income-
	7,23,500
घटाया : Loss	
कटौती धारा 80C बीमा प्रीमियम Deduction u/s 80C LIP	(-) 3000
कटौती धारा 80D के अंतर्गत (चिकित्सा बीमा प्रीमियम) Deduction u/s 80D(Medical Insurance premium)	(-) 500
	<u>कुल आय Total Income</u>
	<u>7,20,000</u>

अन्य साधनों से आय में एक कंपनी के ऋणपत्रों का ब्याज सम्मिलित है जिस पर 1760 ₹ उदगम स्थान पर कर काटा जाता है।

अग्रिम आय कर की गणना कीजिए एवं विभिन्न देय तिथियों पर जमा की जाने वाली अग्रिम कर की राशियाँ बताइए।

Tax will be deducted at source ₹ 1760 on income from other sources includes interest on debentures of a company.

Calculate advance income tax and find out amount of advance tax payable on various dates.